



महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जयिनी
MAHARSHI SANDIPANI RASHTRIYA VEDAVIDYA PRATISHTHAN, UJJAIN
(शिक्षामन्त्रालय, भारतसर्वकारस्याधीनम्)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. आॅ. जवासिया, उज्जैन (म.प्र.) 456006
Veda Vidya Marg, Chintaman Ganesh, Post. Jawasia, Ujjain 456006 (M.P.)

Phone : (0734) 2502255, 2502254
E-mail : msrvvpproject@gmail.com Web - www.msrvvp.ac.in

2025-2026

'वेद ज्ञान सप्ताह' हेतु आवेदन
Application Form for the 'Veda Jnana Saptah'

सम्भावित तिथि : _____
Tentative Date

संस्था का नाम : _____
Name of the Institution

पत्र-व्यवहार हेतु पता : _____
Address for Correspondence : _____

फोन नं. / Ph.No. : _____

मो. /Mobile : _____

ई-मेल / E-mail : _____

गैर सरकारी संगठन दर्पण विशिष्ट आईडी नं. : _____
/ NGO Darpan Unique ID No. _____

संस्थान का पंजीकृत नम्बर : _____
Registration No. of the Institute

(पंजीकृत प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें/Please attach a copy of Registration Certificate)
(सरकारी संस्थानों हेतु आवश्यक नहीं/ Not mandatory for Govt. Institutions)

आयोजक संस्था द्वारा कार्यक्रम में स्वयं के स्रोत से व्यय की जाने वाली राशि का बजट : _____
The amount of budget to be spent from its own source on the programme by the organising body : _____

बैंक खाता संख्या : _____
Bank Account No.

बैंक का नाम एवं शाखा : _____
Bank Name & Branch

बैंक आईएफएससी कोड नं. : _____
Bank IFSC Code No.

नाम, पदनाम, हस्ताक्षर
Name, Designation, Signature

विगत तीन वर्षों में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण

Details of programmes organized in last three years.

- (1) अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन / All India Vedic Conference, (2) क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन / Regional Vedic Conference (3) अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी / All India Vedic Seminar (4) वेद ज्ञान सप्ताह / Veda Jnana Saptah (5) सभी के लिए वैदिक कक्षाएँ / Vedic Classes for All (6) वेद संदेश यात्रा / Veda Sandesh Yatra (7) वेद पारायण / Veda Parayana (8) वेद जागरण यात्रा / Veda Jagran Yatra

क्र./ Sl.No.	कार्यक्रम का नाम / Name of Programme	दिनांक / Date
1		
2		
3		

सम्बन्धित संस्था के कुलपति/कुलसचिव/सचिव/अध्यक्ष का विवरण

Details of Vice-Chancellor/Registrar/Secretary/Chairman of the concerned Institution

कुलपति/कुलसचिव/सचिव/अध्यक्ष का नाम : _____

Name of V.C./Registrar/Secretary/
Chairman

पत्र-व्यवहार हेतु पता

Address for Correspondence

: _____

फोन नं. / Ph.No.

: _____

मो./Mobile

: _____

ई-मेल / E-mail

: _____

नाम, पदनाम, हस्ताक्षर
Name, Designation, Signature